



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1970/बैशाख 11, 1892

No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1970/VAISAKHA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st May 1970

G.S.R. 725.—In exercise of the powers conferred by sub-item (1) of item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 96F of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962 (as subsequently amended), the Central Government hereby fixes the following rates of duty on tea (falling under sub-item (1) of item No. 3 of the aforesaid First Schedule),

as are specified in the third column of the Table below in relation to the zone mentioned in the corresponding first column of that Table:—

THE TABLE

Zone	Place of production	Rate of duty per kilogram
		Rupees
I	Districts of Goalpara and Cachar in Assam State Union territory of Tripura; Siliguri and Kalimpong sub-divisions and areas in jurisdiction list numbers 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 and 24 comprising Simulbarie and Marionbarie Tea Estates of Kurseong Police Station in Kurseong sub-division of the Darjeeling District and the district of West Dinajpur and other districts in West Bengal excluding the district of Jalpaiguri and other sub-divisions of Darjeeling District; Gudalur taluka of the district of Nilgiris and districts of Kanya Kumari and Tinnevely in Madras State; Peermade, Meenachhal and Kanchirapalli talukas of the district of Kottayam and districts of Ernakulam, Trivandrum, Quilon, Cannanore, Kozhikode, Trichur and Palghat in Kerala State; All areas in the States of Punjab, Bihar, Uttar Pradesh and the Union territory of Himachal Pradesh; Any other areas in the territory of India other than areas included in Zones II, III, IV and V.	0.25
II	Districts of Nowgaon and Kamrup and Mangaldai sub-division of Darrang District in Assam State; District of Jalpaiguri in West Bengal; Districts of Hassan, Chickmagalur and Coorg in Mysore State; Devikulam and Udmanchola talukas of the district of Kottayam in Kerala State; Districts of Coimbatore and Madurai in Madras State.	0.50
III	The Sadar sub-division and Kurseong sub-division excluding the areas in the jurisdiction list Nos. 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 and 24 comprising Simulbarie and Marionbarie Tea Estates of Kurseong Police Station in Kurseong sub-division of the Darjeeling district in West Bengal	1.50
IV	District of Nilgiris excluding Gudalur taluka in Madras State	1.00
V	District of Darrang excluding Mangaldai sub-division and the districts of Lakhimpur and Sibsagar in Assam State	1.15

Provided that—

- (i) the rate of duty leviable on tea manufactured in one zone from green leaves grown in another zone shall be the rate applicable to the zone in which such leaves were grown;
- (ii) irrespective of the Zone of production, the rate of duty leviable on 'Green Tea' shall be 10 paise per kilogram;
- (iii) where tea manufactured in a factory owned by a Cooperative Society registered under any law relating to Cooperative Societies is assessed according to the rate specified in the third column of the Table above, the duty leviable on such tea shall be reduced by 10 per cent. of such rate subject to the conditions—
 - (a) that no member of such Co-operative Society owns a holding exceeding ten hectares under cultivation of tea plants; and

- (b) that the green leaf used is not purchased by such Co-operative Society from any grower who has a holding exceeding ten hectares under cultivation of tea plants; and
- (iv) where tea manufactured in a bought-leaf factory is assessed according to the rate specified in the third column of the Table above, the duty leviable on such tea shall be reduced by 10 per cent. of such rate.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression “bought-leaf factory” means a tea factory which has purchased not less than two-thirds of its green-leaf from outside sellers during the financial year 1963-64 and in the financial year immediately preceding that in which the duty is levied.

[No. 90/70.]

G.S.R. 726.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts pasteurised butter, falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which is used for the manufacture of ghee, milk or pasteurised or processed cheese within the factory of production of such pasteurised butter, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 91/70.]

G.S.R. 727.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts biscuits, falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding fifty thousand rupees, cleared on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

- (i) this exemption shall not apply to any such biscuits manufactured by a manufacturer if the total value of the biscuits so cleared during such financial year exceeds rupees two lakhs;
- (ii) where a factory producing biscuits is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of such biscuits so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed fifty thousand rupees; and
- (iii) in the case of biscuits manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds fifty thousand rupees but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof up to a value not exceeding fifty thousand rupees.

[No. 92/70.]

G.S.R. 728.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 30/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, for the figures “15”, the figures “74” shall be substituted.

[No 93/70].

G.S.R. 729.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts metal containers, falling under Item No. 48 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon

[No. 94/70.]

G.S.R. 730.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 53/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, for the words "face powder cases and spectacle cases", the words "face powder cases, spectacle cases, mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes" shall be substituted.

[No. 95/70.]

G.S.R. 731.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts metal containers, falling under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), which are reformed out of metal containers, commonly known as flattened containers or folded containers, on which the duty of excise leviable under the said Item No. 46 has already been paid, from the whole of the duty of excise leviable on such re-formed metal containers.

[No. 96/70.]

G.S.R. 732.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts metal containers, falling under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees one lakh, cleared on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that:—

- (i) this exemption shall not apply to any such metal containers, manufactured by a manufacturer of the total value of the metal containers so cleared during such financial year [excluding the items of metal containers specified in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 53/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970 and No. 94/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970] exceeds rupees two lakhs;
- (ii) where a factory producing metal containers is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of such metal containers so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees one lakh; and
- (iii) in the case of metal containers manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding rupees one lakh.

[No. 97/70.]

G.S.R. 733.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts safes, strong boxes, cash boxes, deed boxes and the like (but not including strong room linings and strong room doors), of base metal, (hereafter referred to as the articles) falling under Item No. 48 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding fifty thousand rupees, cleared on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Provided that:—

- (i) this exemption shall not apply to any such articles manufactured by a manufacturer if the total value of the articles so cleared during such financial year (excluding the value of the articles in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power) exceeds rupees two lakhs;
- (ii) where a factory producing the articles is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of the articles so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed fifty thousand rupees; and

- (iii) in the case of the articles manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds fifty thousand rupees but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding fifty thousand rupees.

[No. 98/70.]

G.S.R. 734.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, safes, strong boxes, cash boxes, deed boxes and the like (but not including strong room linings and strong room doors), of base metal, falling under Item No. 48 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 99/70.]

G.S.R. 735.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 109/61-Central Excises, dated the 20th April, 1961, the Central Government hereby exempts plastics all sorts, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), except—

- (i) poly-urethane foam,
- (ii) rigid plastic boards, sheeting, sheets and films whether laminated or not; and
- (iii) flexible polyvinyl chloride and polyethelene lay-flat tubings, sheeting, sheets and films not containing any textile material,

from the whole of the duty of excise leviable thereon; provided such plastics are produced out of scrap of plastics.

[No. 100/70.]

G.S.R. 736.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 59/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964, the Central Government hereby exempts all articles made of plastics, falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), except—

- (i) poly-urethane foam,
- (ii) rigid plastic boards, sheeting, sheets and films whether laminated or not; and
- (iii) flexible polyvinyl chloride and polyethelene lay-flat tubings, sheeting, sheets and films not containing any textile material,

from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that such plastics are produced out of the artificial resins or plastic materials in any form, falling under sub-item (1) of the said item, on which the duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has already been paid.

[No. 101/70.]

G.S.R. 737.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 27/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts flexible polyvinyl chloride and polyethelene sheeting, sheets, films and lay-flat tubings not containing any textile material, falling under sub-Item (2) of Item No. 15A of the First Schedule of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 25 per cent, *ad valorem*.

[No. 102/70.]

G.S.R. 738.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 28/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts poly-urethane foam and rigid plastic boards, sheeting, sheets, films whether laminated or not and falling under sub-item (2) of the Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 20 per cent *ad valorem*:

Provided that if any plastic materials, cellophane, paper or cotton fabrics on which the appropriate amount of duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has already been paid, are used in the manufacture of poly-urethane foam or rigid plastic boards or sheeting or sheet or films, the amount of duty of excise or the additional duty so paid shall also be adjusted towards the duty payable on the poly-urethane foam or rigid plastic boards or sheeting or sheets or films, as the case may be.

[No. 103/70.]

G.S.R. 739.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (3) against Serial No. 3, for the figures "0.40", the word "NIL" shall be substituted.

[No. 104/70.]

G.S.R. 740.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby fixes for rayon and artificial silk fabrics, specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with duty *ad valorem* under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the said Act, the tariff values specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Fabrics printed or containing lurex (metallic/plastic) yarn	Others
(1)	(2)	(3)	(4)
		(Rupees per square metre)	
1.	Fabrics made wholly of polyamide (nylon) filament yarn but excluding (i) fabrics made of crimped yarn, (ii) pleated fabrics, (iii) raised (velvet) fabrics, (iv) laces, (v) satcen, and (vi) leno fabrics:		
	(a) moss crepe/nylon moss	5.25	4.25
	(b) plain georgette.	6.00	5.00

1	2	3	4
(c) knitted fabrics :			
	(i) not exceeding 15 square metres per kilogram.	11.75	10.75
	(ii) exceeding 15 square metres per kilogram.	9.00	8.00
	(d) fabrics not otherwise specified	7.00	6.00
2.	Fabrics made of a combination of polyamide (nylon) filament yarn and not less than twenty per cent of filament yarn of cellulosic derivatives but excluding such fabrics made of crimped yarn :		
	(a) sateen	7.00	6.00
	(b) brocco	8.50	7.50
	(c) others	6.25	5.25
3.	Fabrics, other than coatings and suitings, made of a combination of polyamide (nylon) filament yarn and yarn spun from acrylic fibre, whether containing any rayon filament yarn or not.	8.25	7.25
4.	Fabrics made of a combination of polyamide (nylon) filament yarn and yarn spun from staple fibre of cellulosic origin but excluding laces :		
	(a) fabrics containing twinkle polyamide (nylon) filament yarn.	4.25	3.75
	(b) brocco	5.25	4.50
	(c) suitings and coatings	6.25	5.50
	(d) fabrics not otherwise specified	3.50	2.75
5.	Fabrics made wholly of filament yarn of cellulosic origin but excluding (i) furnishing fabrics, (ii) velvet, and (iii) fabrics, made of crimped yarn :		
	(a) sateen, moss crepe and georgette	4.25	3.50
	(b) others :		
	(i) jacquard weave	4.75	4.00
	(ii) other than jacquard weave.	3.50	2.75
6.	Fabrics made of a combination of filament yarn of cellulosic origin and yarn spun from staple fibre of cellulosic origin but excluding furnishing fabrics :		
	(a) coatings and suitings	4.50	3.75
	(b) others	3.15	2.40
7.	Fabrics made wholly of yarn spun from staple fibre of cellulosic origin but excluding furnishing fabrics :		
	(a) coatings and suitings	4.00	3.25
	(b) others	3.25	2.50

G.S.R. 741.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 44/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Duty
1	2	3
Processed rayon or artificial silk fabrics—		
	(a) not exceeding Rs. 3.00 per square metre in value	Two per cent. <i>ad valorem</i> .
	(b) exceeding Rs. 3.00 per square metre but not exceeding Rs. 3.50 per square metre in value	Three and a half per cent. <i>ad valorem</i> .
	(c) exceeding Rs. 3.50 per square metre but not exceeding Rs. 5.00 per square metre in value.	Five per cent. <i>ad valorem</i> .
	(d) exceeding Rs. 5.00 per square metre in value.	Six and a half per cent <i>ad valorem</i> .

Provided that the duty payable on each consignment of artificial silk fabrics shall be reduced by five per cent if such fabrics are processed by an independent processor and are cleared from the processing factory without cutting any fents, rags, chindles or any portion of these fabrics, whether damaged or not.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) the expression "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendaring with plain rollers; and
- (ii) the expression "independent processor" means a manufacturer who processes rayon and artificial silk fabrics which do not belong to him and has no interest in weaving or knitting of rayon and artificial silk fabrics.

[No. 106/70.]

G.S.R. 742.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 45/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Duty
1	2	3
Processed rayon or artificial silk fabrics—		
(a)	not exceeding Rs. 3.00 per square metre in value.	0.6 per cent, <i>ad valorem</i> .
(b)	exceeding Rs. 3.00 per square metre but not exceeding Rs. 3.50 per square metre in value.	One and a half per cent, <i>ad valorem</i> .
	exceeding Rs. 3.50 per square metre but not exceeding Rs. 5.00 per square metre in value.	Two per cent, <i>ad valorem</i> .
(d)	exceeding Rs. 5.00 per square metre in value.	2.2 per cent, <i>ad valorem</i> .

Provided that the duty payable on each consignment of artificial silk fabrics shall be reduced by five per cent. if such fabrics are processed by an independent processor and are cleared from the processing factory without cutting any joints, rags, chindies or any portion of these fabrics, whether damaged or not.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) the expression “processed” means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers; and
- (ii) the expression “independent processor” means a manufacturer who processes rayon and artificial silk fabrics which do not belong to him and has no interest in weaving or knitting of rayon and artificial silk fabrics.

[No. 107/70.]

G.S.R. 743.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts room air-conditioners which are ordinarily sold or offered for sale as ready assembled units, namely, package type air-conditioners and window air-conditioners falling under sub-item (2) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent *ad valorem*, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Collector of Central Excise is satisfied that such air-conditioners are required for use in any hospital run by the Central Government, a State Government, a local authority or a public charitable institution;
- (b) the head of the aforesaid hospital for which such air-conditioners are required, gives a written undertaking to the Collector of Central Excise that—
 - (i) he will satisfy the proper officer of the Central Excise within one month of the date of clearance of the air-conditioners by the manufacturer, after payment of duty or such extended period as the Collector of Central Excise may allow that the air-conditioners are actually used in such hospital; and
 - (ii) the air-conditioners shall not be resold within a period of five years from the date the air-conditioners are installed in such hospital, and in default to pay the part of the duty which is exempt under this notification; and
- (c) the procedure specified in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 108/70.]

E. R. SRIKANTIA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मई, 1970

सा० का० नि० 725 :— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (i) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तत्पश्चात् यथा संशोधित अधिसूचना सं० 23/62-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अप्रैल 1962 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चाय [जो उपरोक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (1) के अन्तर्गत आती है] पर निम्नलिखित शुल्क की दरें नीचे की सारणी की तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 3 में उस मारणी के तत्संबंधी प्रथम स्तम्भ में वर्णित जोन के सम्बन्ध में नियत करती है, अर्थात्:—

क्षेत्र	उत्पादन का स्थान	प्रति किलोग्राम शुल्क की दर
1	2	3
1	असम राज्य में गोआलपाड़ा और कछार के जिले; त्रिपुरा का संघ राज्य क्षेत्र ; सिलीगुरी और कैलिमपींग उपखंड और अधिकारिता सूची संख्या 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23, और 24 जिनमें दार्जिलिंग जिले के कुसियांग उपखंड में कुसियांग पुलिस स्टेशन की सड़मलबेरी और मेरीयानबेरी चाय संपदा और पश्चिम धिनाजपुर जिला, और पश्चिम बंगाल के अन्य जिल समाविष्ट हैं, जलपाईगुड़ी जिले को और दार्जिलिंग जिले के अन्य उपखंडों को छोड़ कर । नीलमिरी जिले का गुदालूर ताल्लुक और मद्रास राज्य में कन्याकुमारी और तिनेवैल्ली के जिले; कोट्टायाम जिले के परिमाडे, मोनाछल और कंचीरपल्ली ताल्लुके और केरल राज्य के एरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम, कवीलान, कैनानूर, कोजीकोड, त्रिचूर और पालघाट जिले ; पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में के सब क्षेत्र ।	0.15

1

2

3

भारत के राज्य-क्षेत्र में, जोन 2, 3, 4 और 5 में सम्मिलित क्षेत्रों से भिन्न, कोई अन्य क्षेत्र ।

- | | | |
|---|---|------|
| 2 | नवगांव और कामरूप जिले, और असम राज्य में दांग जिले का उपखंड मंगलदेई ; | 0.50 |
| | पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला, मैसूर राज्य में हसन, चिकमगलूर और कुर्ग जिले ; | |
| | केरल राज्य में कोट्टायाम जिले के देवीकुलम् और उदमन-छोलई ताल्लुके ; मद्रास राज्य में कोयेम्बतूर और मदुराई जिले । | |
| 3 | अधिकारिता सूची सं० 31, 29, 33, 20, 21, 22, 23 और 24, जिसमें पश्चिम बंगाल में बार्जिलिंग जिले के कुसियांग उपखंड में कुसियांग पुलिस स्टेशन की सड़मलबेरी और मेरीयान बेरी चाय सम्पदा समाविष्ट है, के क्षेत्रों को छोड़ कर सदर उपखंड और कुसियांग उपखंड | |
| 4 | मद्रास राज्य में नीलगिरी जिला गुदालूर ताल्लुके को छोड़ कर ; | 1.00 |
| 5 | असम राज्य में मंगलदेई उपखंड को छोड़कर दरंग जिला और लखीमपुर और सिबसागर जिले ; | 1.15 |

परन्तु यह कि—

- (i) [एक जोन में, दूसरे जोन में उगाई गई हरी पत्तियों से, विनिर्मित चाय पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की दर वह दर होगी जो उस जोन में जिसमें ऐसी पत्तियां उगाई गई थीं, को लागू हैं ;
- (ii) [‘हरीचाय’ पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की दर, उत्पादन के जोन पर ध्यान दिए बिना, 10 पैसे प्रति किलोग्राम होगी ;
- (iii) [जहां सहाकारी सोसाइटी से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहाकारी सोसाइटी के स्वामित्व में किसी कारखाने में विनिर्मित चाय

1

2

3

4

उपरोक्त सारणी के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारित की जाती है, तो वहाँ ऐसी चाय पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन 10 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा:—

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य जो दम हैक्टेयर से अधिक ऐसी जाति का स्वामी है जिस में चाय पौधों की खेती हो ।

(ख) प्रयुक्त की गई पत्तियाँ ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे उगाने वाले से क्रय नहीं की गई है जिसकी दम हैक्टेयर से अधिक ऐसी धरती है जिसमें चाय पौधों की खेती हो ।

(4) जहाँ क्रीत-चाय पत्ती कारखाने में विनिर्मित चाय का उपर्युक्त सारणी के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारण किया जाता है वहाँ ऐसी चाय पर उद्ग्रहणीय शुल्क में ऐसी दर के दस प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी।

- स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “क्रीत चाय पत्ती कारखाना पद से चाय का वह कारखाना अभिप्रेत है जिसने 1963-64 के वित्तीय वर्ष के दौरान और उस वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में जिसमें उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण किया गया हो अपनी हरी पत्तियों का दो तिहाई से अल्पतः बाहर के विक्रेताओं से क्रय किया हो ।

[सं० 90/70]

सा० का० नि० 726.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 ग के अन्तर्गत आने वाले पास्तुरीकृत मक्खन को जिसका उपयोग ऐसे पास्तुरीकृत मक्खन के उत्पादन के कारखाने के भीतर घी, दूध या पास्तुरीकृत या प्रसंस्कृत पनीर के विनिर्माण में किया जाता है उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है ।

[सं० 91/70]

सा० का० नि० 727 .—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम

(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1-ग के अन्तर्गत आने वाले पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य तक के ऐसे बिस्कुटों को, जो गृह उपभोग के लिए एक या अधिक कारखानों से विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् निकासी किए गए हों, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

परन्तु—

- (i) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे बिस्कुट किन्हीं बिस्कुटों को लागू नहीं होगी यदि ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे निकासी किए गए बिस्कुटों का कुल मूल्य दो लाख रुपयों से अधिक हो ;
- (ii) जहां कि बिस्कुट उत्पादित करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता है वहां किसी ऐसे वर्ष में ऐसे कारखाने से शुल्क की शून्य दर पर निकासी किए गए ऐसे बिस्कुटों का मूल्य पचास हजार रुपयों से अधिक नहीं होगा ; और
- (iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे बिस्कुटों की दशा में, जिनकी ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी निकासी का मूल्य पचास हजार रुपयों से अधिक है किन्तु दो लाख रुपयों से अधिक नहीं है यह छूट उसके केवल पचास हजार रुपयों से अधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी को लागू होगी ।

[सं० 92/70]

सा० का० नि० 728 .—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 30/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 में, “15” अंकों के स्थान पर “7/8” अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 93/70]

सा० का० नि० 729 .—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 46 के अन्तर्गत आने वाले धानु आधानों को जिनके विनिर्माण में या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया सामान्यतः शक्ति की सहायता से नहीं की जाती है दा पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है ।

[सं० 94/70]

सा० का० नि० 730:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8, उप नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अभिसूचना संख्या 53/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 में “मुंह पर लगाने के पाउडर के केस और चणमें के केस”, शब्दों के स्थान पर “मुंह पर लगाने के पाउडर के केस, चणमें के केस, गणितीय बक्से, ज्यामितीय बक्से और रंग के बक्से” शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[स० 95/70]

सा० का० नि० 731:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 46 के अन्तर्गत आने वाले धातु आधानों को, जो उन धातु आधानों में पुनः निर्मित किए गए हैं जो समान्यतः चपटे आधानों या विलिन आधानों के रूप में जाने जाते हैं और जिन पर उक्त पद संख्या 46 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क पहले से ही संदत्त किया जा चुका है, ऐसे पुनः निर्मित धातु आधानों पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[स० 96/70]

सा० का० नि० 732:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 46 के अन्तर्गत आने वाले, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् एक या एक से अधिक कारखानों से गृह उपभोग के लिये निकामी किए गए, एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य तक के, धातु आधानों को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

परन्तु यह कि :

- (i) यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में इस प्रकार निकामी किए गए धातु आधानों (भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अभिसूचना संख्या 53/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 1970 और सं० 94/70 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मई 1970 में विनिर्दिष्ट धातु आधानों की पदों को अपूर्वाजित करके) का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो तो यह छूट विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे किन्हीं धातु आधानों को लागू नहीं होगी, और
- (ii) जहां धातु आधान उत्पादित करने वाले कारखाने को किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न समय पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता है वहां ऐसे कारखाने में किसी भी ऐसे वर्ष में शुल्क की शून्य दर पर निकासी किए गए ऐसे धातु आधानों का मूल्य एक लाख रुपये से अनधिक होगा, और
- (iii) विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी किए गए धातु आधानों की दशा में जिनका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अनधिक हो यह छूट एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य तक की उनकी प्रथम निकासियों को ही लागू होगी।

[सं० 97/70]

सा० का० नि० 733.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 48 के अन्तर्गत आने वाली, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् एक या एक से अधिक कारखानों से गृह-उपभोग के लिए निकासी की गई, पचास हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की, अपघातु की तिजोरियों, सुरक्षित बक्सों, नकदी बक्सों, विलेख बक्सों और ऐसी ही वस्तुओं (किन्तु इनमें सुरक्षित कमरा अस्तर और सुरक्षित कमरा दरवाजे सम्मिलित नहीं हैं) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् वस्तु कहा गया है) को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु यह कि —

- (i) यदि ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी की गई वस्तुओं (ऐसे उन उत्पादों को अपवर्जित करके जिनके विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया सामान्यतः शक्ति की सहायता से नहीं की जाती) का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो तो यह छूट विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी ऐसी वस्तु पर लागू नहीं होगी ;
- (ii) जहां वस्तुएं उत्पादित करने वाला कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न निर्माताओं द्वारा चलाया जाता है वहां ऐसे कारखाने से किसी ऐसे वर्ष में शुल्क की शून्य दर पर इस प्रकार निकासी की गई वस्तुओं का मूल्य पचास हजार रुपये से अनधिक होगा ; और
- (iii) विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी की गई वस्तुओं की दशा में जिनका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अनधिक हो, यह छूट पचास हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की उ की प्रथम निकासियों को ही लागू होगी ।

[सं० 98/70]

सा० का० नि० 734.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 48 के अन्तर्गत आने वाली उपघात की तिजोरियों, सुरक्षित बक्सों, नकदी बक्सों, विलेख बक्सों या ऐसी ही वस्तुओं को, जिनके विनिर्माण में या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया सामान्यतः शक्ति की सहायता से नहीं की जाती है, इन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 99/70]

सा० का० नि० 735.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिमूचना सं० 109/61—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1961 को अधिकांत करते

हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15-क के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के प्लास्टिकों के, सिवाय —

- (i) पालि-यूरिथेन फोम के,
- (ii) दृढ़ प्लास्टिक बोर्डों, शीटिंग, चादरों और फिल्मों के, चाहे पटलित हों या न हों, और
- (iii) नम्य पालिविनील क्लोराइड और पालिएथिलीन लेपलैट ट्यूबिंग्स, शीटिंग, चादरों और फिल्मों के जिनमें कोई टेक्सटाइल सामग्री न हो,

उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है; परन्तु ऐसे प्लास्टिक, प्लास्टिकों की रद्दी से उत्पादित हों।

[सं० 100/70]

सा० का० नि० 736.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 59/64—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15-क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली प्लास्टिक सिवाय—

- (i) पोलि-यूरिथेन फोम के,
- (ii) दृढ़ प्लास्टिक बोर्डों, शीटिंग, चादरों और फिल्मों के, चाहे पटलित हों या न हों; और
- (iii) नम्य पोलिविनील क्लोराइड और पालिएथिलीन लेपलैट ट्यूबिंग्स शीटिंग, चादरों और फिल्मों के, जिनमें कोई टेक्सटाइल सामग्री न हो की बनी सभी वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

परन्तु ऐसी वस्तुएं उक्त मद की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले नकली रेजिन या किसी भी रूप में प्लास्टिक सामग्री, जिसपर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2-क के अधीन उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क, यथास्थिति, पहले ही संदत्त किया जा चुका है, से उत्पादित हों।

[सं० 101/70]

सा० का० नि० 737.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 27/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिकांत करने हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15-क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले नम्य पोलिविनील क्लोराइड और पोलिएथिलीन शीटिंग, चादरों, फिल्मों और लेपलैट नलिकाओं जिसमें टेक्सटाइल सामग्री न हो, को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक हों, से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 102/70]

सा० का० नि० 738.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 28/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिकांग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले पोलि-युरिथेन फोम और दृढ़ प्लास्टिक, बोर्डों, शीटिंग, चादरों, फिल्मों चाहे पटलित हों या न हों, को उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद शुल्क से, जितना मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक हो, एतद्वारा छूट देती है।

परन्तु यदि कोई प्लास्टिक सामग्रियां, सेलोफेन, कागज या सूती फब्रिक, जिन पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन यथास्थिति उत्पाद शुल्क की समुचित रकम या अतिरिक्त शुल्क पहले ही संदत्त की जा चुकी है, का उपयोग पोलि युरिथेन फोम या दृढ़ प्लास्टिक बोर्ड या शीटिंग या चादर या फिल्मों के विनिर्माण में किया जाता है, तो ऐसे संदत्त उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की रकम भी यथास्थिति, युरिथेन फोम या दृढ़ प्लास्टिक बोर्डों या शीटिंग या चादरों या फिल्मों पर संवेय शुल्क के मवे समायोजित की जाएगी।

[सं० 103/70]

सा० का० नि० 739.—केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/69—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करने के लिए करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की उपाबद्ध सारणी में ;

क्रम सं० 3 के सामन स्तम्भ (3) में “0.40”।

अंकों के स्थान पर “शून्य” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० 104/70]

सा० का० नि० 740.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उप मद (1) के अन्तर्गत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य रेयन और कृत्रिम रेशम

के फैनिकों के लिए एतद्वारा उक्त सारणी के, यन्त्रास्थिति स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिक मूल्य नियत करती हैं ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	छपे हुए या ल्यूरेक्स (धात्विक /प्लास्टिक) सूत वाले फैनिक	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		(रुपये प्रति वर्ग मीटर)	
1.	पूर्णतः पालीमायड (नायलन) फिलामेंट से बने फैनिक किन्तु (i) झुरीदार सूत से बने फैनिकों (ii) फ्लीट वाले फैनिकों, (iii) उभड़े (मखमली) फैनिकों (iv) लेसों साटिन और (v) सूती जाली के फैनिकों को छोड़कर ;		
	(क) मास क्रेप / नायलन मास	5.25	4.25
	(ख) सादी आर्जेंट	6.00	5.00
	(ग) बुने हुए फैनिक :		
	(i) 15 वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम से अनधिक	11.75	10.75
	(ii) 15 वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम से अधिक	9.00	8.00
	(घ) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए फैनिक	7.00	6.00
2.	पालीमायड (नायलन) फिलामेंट सूत और सेलुलोसी उद्भव के फिलामेंट सूत के बीस प्रतिशत से अल्पतः के संमिश्रण से बने फैनिक किन्तु झुरीदार सूत से बने ऐसे फैनिकों को छोड़कर ;		
	(क) साटिन	7.00	6.00
	(ख) ब्रोस्सो	8.50	7.50
	(ग) अन्य	6.25	5.25

(1)	(2)	(3)	(4)
3. पालीमायड (नायलन) फिलामेंट सूत और एफ़िलिक तंतु से कते सूत चाहे उसमें कोइ रेयन फिलामेंट सूत हो या नहीं, के सम्मिश्रण से बने कोटिंग और सूटिंग से भिन्न फैब्रिक		8.25	7.25
4. पालीमायड (नायलन) फिलामेंट सूत और सेलुलोसी मूल के तन्तुक से कते सूत के सम्मिश्रण से बने फैब्रिक किन्तु लेसों को छोड़कर :			
(क) टिबंकल पालीमायड (नायलन) फिलामेंट सूत वाले फैब्रिक		4.25	3.75
(ख) ब्रोस्सो		5.25	4.50
(ग) सूटिंग और कोटिंग		6.25	5.50
(घ) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए फैब्रिक		3.50	2.75
5. पूर्णतः सेलुलोसी मूल के फिलामेंट सूत से बने फैब्रिक, किन्तु			
(i) सज्जा फैब्रिकों			
(ii) मखमल, और			
(iii) धुरीदार सूत से बने फैब्रिकों को छोड़ कर :			
(क) साटिन मास क्रेप और जार्जेट		4.25	3.50
(ख) अन्य :			
(i) जैकार्ड बुनावट		4.75	4.00
(ii) जैकार्ड बुनावट में भिन्न		3.50	2.75
6. सेलुलोसी मूल के फिलामेंट सूत और सेलुलोसी मूल के तन्तुक से कते सूत के सम्मिश्रण से बने फैब्रिक किन्तु सज्जा फैब्रिकों को छोड़कर :			
(क) कोटिंग और सूटिंग		4.50	3.75
(ख) अन्य		3.15	2.40
7. पूर्णतः सेलुलोसी मूल के तन्तुक से कते सूत से बने फैब्रिक किन्तु सज्जा फैब्रिकों को छोड़कर			
(क) कोटिंग और सूटिंग		4.00	3.25
(ख) अन्य		3.25	2.50

सा० का० नि० 741.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 44/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिभ्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाले और इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, एतद्वारा छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक—		
(क)	मूल्य में 3.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	दो प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख)	मूल्य में 3.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	साढ़े तीन प्रतिशत मूल्यानुसार
(ग)	मूल्य में 3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
(घ)	मूल्य में 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक	साढ़े छह प्रतिशत मूल्यानुसार

परन्तु कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों के हर परेषण पर संदेय शुल्क में पांच प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी यदि ऐसे फैब्रिक किसी स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए जाएं और इन फैब्रिकों के बाहेर नुकसान पहुंचे हुए हों या नहीं ; कोई टुकड़े, चिथड़े, चिन्दियां या उनके किसी भाग को काटे बिना संस्करण कारखान से निकासी की जाएं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :

- “प्रसंस्कृत” पद से सादे रोलरों से इस्त्री करने की प्रक्रिया से भिन्न वे सब प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो सामान्यतः शक्ति या भाप की सहायता से की जाती हैं ; और
- “स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता” पद से वह विनिर्माता अभिप्रेत है जो उन रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों को प्रसंस्कृत करता है जो उसके नहीं हैं और जिसका रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों की धयन या बुनाई में कोई हित न हो।

[सं० 106/70]

सा० का० नि० 742.—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 45/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सारीख 1 मार्च, 1970, को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों को, उत्तर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उक्त भाग से जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क
1	2	3

प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक—

(क) मूल्य में 3.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	मूल्यानुसार 0.6 प्रतिशत
(ख) मूल्य में 3.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	मूल्यानुसार डेढ़ प्रतिशत
(ग) मूल्य में 3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अनधिक	मूल्यानुसार दो प्रतिशत
(घ) मूल्य में 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक	मूल्यानुसार 2.2 प्रतिशत

परन्तु कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों के हर परेषण पर संदेय शुल्क में पांच प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी यदि ऐसे फैब्रिक किसी स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए जाएं और इन फैब्रिकों, चाहे वे नुकसान पहुंचे हुए हों या नहीं, कोई टुकड़े, चिथड़े, चिन्दियां या उनके किसी भाग को काटे बिना प्रसंस्करण कारखाने से निकासी की जाए।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

- (i) “प्रसंस्कृत” पद के सादे रोलरों से इस्त्री करने की प्रक्रिया से भिन्न वे सब प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो सामान्यतः शक्ति या भाप की सहायता से की जाती है ; और

- (ii) "स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता" पद से वह विनिर्माता अभिप्रेत है जो उन रेयन और कृत्रिम रेशम और कृत्रिम रेशम के फैब्रिकों को प्रसंस्कृत करता है जो उसके नहीं हैं और जिसका रेयन और कृत्रिम रेशम [के फैब्रिक की वयन या बुनाई में कोई हित न हो ।

[सं० 107/70]

सा० का० मि० 743 .—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मध सं० 29 क की उप मध (2) के अन्तर्गत आने वाले कमरा वातानुकूलकों को, जिन्हें सामान्यतया तैयार संयोजित इकाइयों के रूप में विक्रय अथवा विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात् पैकेज प्रकार के वातानुकूलकों और खिड़कियों में लगने वाले वातानुकूलकों को, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्यानुसार तीस प्रतिशत से अधिक हो, एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे वातानुकूलकों की, केन्द्रीय सरकारें, राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी या लोक पूर्त संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी अस्पताल में प्रयुक्त किये जाने की अपेक्षा है ;

(ख) उपर्युक्त अस्पताल का प्रधान जिसके लिए ऐसे वातानुकूलक अपेक्षित हैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर को लिखित बचन देता है कि —

(i) वह विनिर्माता द्वारा शुल्क के संदाय के पश्चात् वातानुकूलकों की निकासी की तारीख से एक मास के भीतर अथवा ऐसी बड़ाई हुई कालावधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उचित अधिकारी का यह समाधान कर देगा कि वातानुकूलक ऐसे अस्पताल में वस्तुतः प्रयुक्त किए जाते हैं ;

(ii) वातानुकूलकों के ऐसे अस्पताल में लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर उनका पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा, और व्यक्तिगत की वषा में वह शुल्क के उस भाग का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट प्राप्त है, और ।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के अध्याय X में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

[सं० 108/70]

ई० आर० श्रीकान्तिया, उप सचिव ।